

राज्यसमाचार

पंजाब

अवैध खनन से निपटने को पंजाब सरकार खुद रेत बेचेगी

- पंजाब में बड़ा सियासी मुद्दा बन चुके अवैध रेत खनन की समस्या सुलझाने के लिए बाकायदा निगम बनाया जाएगा। यह दावा रेत खनन की नई पॉलिसी तैयार करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन नवजोत सिंह सिद्ध ने किया है। प्रदेश में अवैध रेत खनन बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है।

दिल्ली

SC/ST से जुड़े मामलों के लिए विशेष कोर्ट का होगा गठन।

- पीएम मोदी ने कहा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा रहा है। सरकार ने पिछड़ी जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया है।

बिहार

गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती: 350 रुपए का स्मारक सिक्का

- गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती, प्रकाशोत्सव पर्व पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने का ऐलान किया है।

उत्तराखंड

ऑलवेदर रोड के लिए मंजूर हुए 650 किमी के कार्य

- चारधाम के लिए बन रही ऑल वेदर रोड के लिए अब तक 650 किलोमीटर सड़क के कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। पहले चरण में केंद्र सरकार ने 400 किमी लंबे मार्ग के लिए 37 कार्यों को मंजूरी दी थी और अब 250 किमी लंबे मार्ग के लिए 13 नए कार्यों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ऑल वेदर रोड के अंतर्गत भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन में आने वाली 90 किमी सड़क के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीयसमाचार

2017 के लिए 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा

- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की फीचर, गैर-फीचर, लेखन श्रेणियों के निर्णायक मंडलों के अध्यक्षों और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समिति के सदस्यों ने आज यहां विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2017 के लिए 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की।

अंग्रेजी में पुरस्कार विजेताओं का विवरण जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें

बुलेट ट्रेन: 250 से 3 हजार रुपये तक होगा किराया

- अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन रोजाना 70 फेरे लगाएगी। इसके लिए कई रैक का प्रयोग किया जाएगा। ज्यादा फेरों का मकसद बुलेट ट्रेन को घाटे से बचाना है। इसके लिए यात्रियों को 250 से लेकर 3000 रुपये तक के कई किराया पैकेज पेश किए जाएंगे। बुलेट ट्रेन का निर्माण इस साल दिसंबर से शुरू होकर 2022 के अंत तक समाप्त होने की उम्मीद है।

बुंदेलखंड में बनेगा डिफेंस मैनुफैक्चरिंग कॉरीडोर

- मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस मैनुफैक्चरिंग कॉरीडोर की स्थापना की जाएगी। इससे यहां के ढाई लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

अंतरराष्ट्रीयसमाचार

संयुक्त राष्ट्र ने लांच किया सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड

- दुनिया भर में विशेष रूप से भारत और कनाडा में बढ़ते सड़क हमलों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड की शुरुआत की है। इस धन का इस्तेमाल सड़क पर दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और घायलों की संख्या में कमी के साथ ही सुरक्षित और सहज परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों की जान की रक्षा और नुकसान की भरपाई के लिए यह फंड लांच किया जा रहा है।

तनाव के बीच ताइवान के जल क्षेत्र में चीन अभ्यास

- चीन ने ताइवान के जल क्षेत्र में लाइव-फायर सैन्य अभ्यास करने की घोषणा की है। ताइवान सरकार के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ने से उत्पन्न तनाव के बीच चीन ने यह घोषणा की है। चीन ने दक्षिण सागर में सैन्य अभ्यास का समापन किया था।

आर्थिक समाचार

आईएमएफ: बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम में निजता की सुरक्षा करे भारत

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत से आधार जैसे बड़े पहचान कार्यक्रम में निजता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी कदम उठाने के लिए कहा है। वैश्विक वित्तीय निकाय ने भारत को बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली में लीडर माना है। डिजीटल गवर्नमेंट पर आईएमएफ ने अपनी वित्तीय निगरानी रिपोर्ट में कहा है डिजीटलाइजेशन से मजबूत संचालन और वित्तीय पारदर्शिता लाई जा सकती है।

भारत में तैयार होंगे उच्च दर्जे के F/A18 लड़ाकू विमान

- अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग ने गुरुवार को भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स (एमडीएस) की साझेदारी में लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की। देसी कंपनियों के साथ मिलकर बोइंग भारत में एफ/ए-सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगी।

खेल समाचार

CWG 2018: शूटिंग में तेजस्विनी सावंत ने जीता गोल्ड, अंजुम मुद्गल को सिल्वर मेडल

- महिलाओं की 50 मीटर राइफल श्री पोजिशन स्पर्धा में भारत की तेजस्विनी सावंत ने रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। अंजुम मुद्गल ने 455.7 स्कोर के साथ अंजुम मुद्गल ने 455.7 स्कोर के साथ रजत पदक जीता।

CWG 2018: अनीष भानवाल ने सिर्फ 15 साल की उम्र में जीता गोल्ड मेडल

- भारतीय शूटर अनीष भानवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा दिया।

CWG 2018: कुश्ती में बजरंग ने जीता गोल्ड

- बजरंग पुनिया ने 21वें कॉमनवेल्थ खेलों में 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

CWG 2018: 50 मीटर राइफल में तेजस्विनी ने डाला 15वां गोल्ड, अंजुम को सिल्वर मिला

- भारतीय महिला निशानेबाज तेजस्विनी सावंत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21वें राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 15वां स्वर्ण पदक डाल दिया है। इसी स्पर्धा में भारत की एक अन्य भारतीय बेटी अंजुम मोदगिल ने दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता है।

CWG 2018: पूजा ढांडा ने सिल्वर जीता

- भारतीय महिला पहलवान पूजा ढांडा महिलाओं की 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया।